



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन 1933 (श0)
(सं0 पटना 589) पटना, शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2011

सं0 3ए-1-मुक0-212/2010-9802-वि0

वित्त विभाग

संकल्प

21 अक्टूबर 2011

विषय:—बिहार उद्योग सेवा के पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान का 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से संशोधन के संबंध में ।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0 660, दिनांक 08 फरवरी 1999 के द्वारा बिहार उद्योग सेवा के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से निम्नवत् स्वीकृत किया गया था:—

क्र0 सं0	पदनाम	दिनांक 01/01/1996 से स्वीकृत वेतनमान
1.	प्रोजेक्ट मैनेजर/सहायक निदेशक (उद्योग)	रु0 6500-10500
2.	फंक्शनल मैनेजर	रु0 10000-15200
3.	जेनरल मैनेजर/उप-निदेशक (उद्योग)	रु0 10000-15200
4.	संयुक्त निदेशक (उद्योग)	रु0 12000-16500
5.	अपर निदेशक (उद्योग)	रु0 14300-18300
6.	निदेशक (तकनीकी)	रु0 16400-20400

2. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा एवं तत्पश्चात् स्वीकृत वेतनमान की त्रुटियों पर सम्यक् अनुशंसा देने हेतु गठित अपीलीय समिति द्वारा उद्योग सेवा के पदों के वेतनमान पर पुनर्विचार कर

अनुशंसा की गई कि जेनरल मैनेजर का पद फंक्शनल मैनेजर के प्रोन्नति का पद होने के कारण दोनों पदों का एक वेतनमान रु0 10000-15200 होना संगत नहीं है । तदनुसार फंक्शनल मैनेजर के लिए वेतनमान रु0 10000-15200, महाप्रबंधक के लिए रु0 12000-16500 एवं संयुक्त निदेशक तथा अपर निदेशक के लिए समान वेतनमान रु0 14300-18300 की अनुशंसा की गयी है । उक्त आलोक में याचिका सं0 450/2004, बिहार उद्योग संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 12 सितम्बर 2005 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में इन पदों के वेतनमान में संशोधन की कार्यवाई राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

3. फिटमेंट अपीलेंट समिति की अनुशंसा का क्रियान्वयन एवं न्यायादेश के अनुपालनार्थ राज्य सरकार द्वारा इन पदों के वेतनमान में निम्नांकित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र० सं०	पदनाम	पूर्व स्वीकृत वेतनमान (01/01/1996)	01/01/1996 से संशोधित
1.	जेनरल मैनेजर/उप-निदेशक (उद्योग)	रु0 10000-15200	रु0 12000-16500
2.	संयुक्त निदेशक (उद्योग)/ अपर निदेशक (उद्योग)	रु0 12000-16500 रु0 14300-18300	रु0 14300-18300

4. उपर्युक्त संशोधन के उपरान्त वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं0 660, दिनांक 08 फरवरी 1999 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा ।

5. दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से उपर्युक्त वर्णित पदों का पुनरीक्षित वेतनमान वित्त विभाग के संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 द्वारा प्रसारित किया जा चुका है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 589-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>